

कार्यालय-कुलसचिव
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय
कानपुर-02

संख्या : 216/कुस0कार्या0/2020

दिनांक : मई 26, 2020

कार्यालय-ज्ञाप


आदेशानुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 9/2020/362/सामान्य-का-4-2020-303/2020टीसी दिनांक 23 मई, 2020 (संलग्न) के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभागों/अनुभागों को खोले जाने हेतु आवश्यकता का निर्धारण करते हुए कर्मचारियों की उपस्थिति का रोस्टर तैयार कर शासनादेश में दिए गए निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित कर विभागीय उपस्थिति रोस्टर की सूची अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(डा० नीरज कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी, एच०बी०टी०यू० कानपुर।
2. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक, एच०बी०टी०यू० कानपुर।
4. सिस्टम मैनेजर, एच०बी०टी०यू० कानपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


कुलसचिव

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-9/2020/362/सामान्य-का-4-2020-303/2020टीसी

लखनऊ दिनांक: 23 मई, 2020

कार्यालय जाप

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था ।

उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व आदेश सं० 303/सा-का-4-2020 दिनांक 20 मार्च,2020 एवं सं० 314/सा-का-4-2020 दिनांक 17अप्रैल,2020 के अनुक्रम में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं-

प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों को खोलने की व्यवस्था करेंगे एवं स्वयं कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार बना लें कि कर्मी अलटरनेट दिवस में कार्यालय आएँ परन्तु इससे शासकीय कार्य में, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। कार्यालय में कार्यावधि में सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाए। प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल में यथासम्भव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करेंगे।

2- कार्यालय आने वाले कार्मिकों के लिए भी समय का आवंटन तीन पालियों में निम्नानुसार किया जाए:-

क- प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक

ख- प्रातः 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक

ग- प्रातः 11:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 3- रीस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेगें उन्हें आवश्यकता पडने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।
- 4- अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाए।
- 5- यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुडे हैं तथा कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।
- 6- संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट एरियाज) में कार्यालयों को बंद किए जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन के स्तर से पृथक से निर्णय लिया जाएगा।

इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-9/2020/362(1)सा0-का-4-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ।
- 3- निदेशक सूचना विभाग 30प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है ,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।